



Staff Selection Commission
(Government Of India)

REGISTRATION NUMBER : examstocks.com

EXAM DATE : 26-October-2017

EXAM NAME : SSC Examination

TOTAL MARKS : 150

CANDIDATE NAME : examstocks.com

EXAM START TIME : 10:00:00

EXAM DURATION : 01:30 Hrs TOTAL NO

OF QUESTIONS : 100

QID : 1 -

In the following question, select the number which can be placed at the sign of question mark (?) from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए।

19	20	21
361	400	441
363	402	?

Options:

1) 405

2) 603

3) 443

4) 442


Correct Answer: 443

Candidate Answer: 443

QID : 2 -

How many triangles are there in the given figure?

दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



Options:

1) 8

2) 6

3) 5

4) 9

Correct Answer: 5

Candidate Answer: 5

QID : 3 -

A word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The sets of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in the given two matrices. The columns and rows of **Matrix-I** are numbered from 0 to 4 and that of **Matrix-II** are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column, for example, 'C' can be represented by 01, 85, etc., and 'U' can be represented by 20, 97, etc. Similarly, you have to identify the set for the word "GEEKY".

एक शब्द केवल एक संख्या-समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि दिए गए दो आव्यूहों में है। आव्यूह-I के स्तम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है और आव्यूह-II की 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'C' को 01, 85, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा 'U' को 20, 97, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए शब्द "GEEKY" के लिए समूह को पहचानना है।

Matrix-I आव्यूह-I						Matrix-II आव्यूह-II					
	0	1	2	3	4		5	6	7	8	9
0	Y	C	W	G	I	5	X	K	D	F	R
1	E	M	O	Q	S	6	G	W	N	H	V
2	U	W	Y	B	A	7	E	O	Y	J	T
3	F	H	G	L	N	8	C	F	I	L	E
4	D	R	T	V	O	9	K	S	U	N	P

Options:

- 1) 32, 01, 89, 56, 22
- 2) 03, 89, 10, 33, 32
- 3) 65, 10, 75, 95, 00
- 4) 58, 75, 59, 56, 77

Correct Answer: 65, 10, 75, 95, 00**Candidate Answer:** 65, 10, 75, 95, 00**QID : 4 -**


From the given answer figures, select the one in which the question figure is hidden/embedded.

दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिस में प्रश्न आकृति निहित है।




Options:


1)



2)




3)




4)



Correct Answer:




Candidate Answer:



QID : 5 -


Which answer figure will complete the pattern in the question figure?

कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी?




Options:


1)




2)




3)




4)



Correct Answer:




Candidate Answer:



QID : 6 -

If a mirror is placed on the line AB, then which of the answer figures is the right image of the given figure?

यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिम्ब होगी?



Options:

1)




2)




3)



4)



Correct Answer:




Candidate Answer:



QID : 7 -


A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figures. From the given answer figures, indicate how it will appear when opened?

नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा?




Options:

1)






2)



3)



4)

**Correct Answer:****Candidate Answer:****QID : 8** - If 'P' means '-', 'Q' means '÷', 'R' means '+' and 'S' means '×', then

$$4 R 9 S 3 P 4 Q 2 = ?$$

यदि 'P' का अर्थ '-', 'Q' का अर्थ '÷', 'R' का अर्थ '+' तथा 'S' का अर्थ '×' हो, तो

$$4 R 9 S 3 P 4 Q 2 = ?$$

Options:

- 1) 31
- 2) 29
- 3) 47
- 4) 69

Correct Answer: 29**Candidate Answer:** 29**QID : 9** - If $11 P 3 Q 2 = 12$ and $9 P 2 Q 5 = 6$, then

$$21 P 11 Q 9 = ?$$

यदि $11 P 3 Q 2 = 12$ तथा $9 P 2 Q 5 = 6$ हो, तो

$$21 P 11 Q 9 = ?$$

Options:

- 1) 27
- 2) 25
- 3) 32
- 4) 23

Correct Answer: 23**Candidate Answer:** 23

QID : 10 - Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary.

1. Expense
2. Expensive
3. Expand
4. Expanded
5. Extra

निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें।

1. Expense
2. Expensive
3. Expand
4. Expanded
5. Extra

Options:

1) 43125

2) 34125

3) 43215

4) 34215

Correct Answer: 34125

Candidate Answer: 34125

QID : 11 - In the following question, select the missing number from the given series.

27, 29, 32, 37, 44, ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए।

27, 29, 32, 37, 44, ?

Options:

1) 49

2) 63

3) 55

4) 71

Correct Answer: 55

Candidate Answer: 49

QID : 12 - A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series.

MNO, PQR, TUV, YZA, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

MNO, PQR, TUV, YZA, ?

Options:

1) EFM

2) EFG

3) FGH

4) FGI

Correct Answer: EFG

Candidate Answer: EFG

QID : 13 - In the following question, select the odd word from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए।

Options:

1) Biscuit

बिस्कुट

2) Rusk

रस्क

3) Cake

केक

4) Candle

मोमबत्ती

Correct Answer: Candle

मोमबत्ती

Candidate Answer: Rusk

रस्क

QID : 14 - In the following question, select the odd number pair from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए।

Options:

1) 22 - 485

2) 16 - 259

3) 12 - 145

4) 6 - 37

Correct Answer: 16 - 259

Candidate Answer: 16 - 259

QID : 15 - In the following question, select the odd letters from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए।

Options:

1) CY

2) KO

3) JP

4) GT

Correct Answer: GT

Candidate Answer: KO

QID : 16 - Identify the diagram that best represents the relationship among the given classes.


Birds, Parrot, Tiger

वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है।


पक्षी, तोता, बाघ

Options:


1)



2)



3)




4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



QID : 17 - In the following question, select the related word from the given alternatives.

Flour : Wheat :: Sugar : ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए।

आटा : गेहूँ :: चीनी : ?

Options:

- 1) Sea
समुद्र
- 2) Sugarcane
गन्ना
- 3) Sweet
मीठा
- 4) White
सफेद

Correct Answer: Sugarcane

गन्ना

Candidate Answer: Sugarcane

गन्ना

QID : 18 - In the following question, select the related number from the given alternatives.**5 : 26 :: 1 : ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।

5 : 26 :: 1 : ?**Options:**

- 1) 21
- 2) 10
- 3) 3
- 4) 2

Correct Answer: 2**Candidate Answer:** 10**QID : 19** - In the following question, select the related letters from the given alternatives.**SHARE : TGBQF :: MALE : ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए।

SHARE : TGBQF :: MALE : ?**Options:**

- 1) NOPQ
- 2) NZMF
- 3) LZMD
- 4) NZMD

Correct Answer: NZMD**Candidate Answer:** NZMF**QID : 20** - In the following question, select the word which cannot be formed using the letters of the given word.**PARAMOUNT**

निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।

PARAMOUNT**Options:**

- 1) PART
- 2) MOUNT
- 3) TEAM
- 4) PARAM

Correct Answer: TEAM**Candidate Answer:** TEAM**QID : 21** - B is 4 years older to C. C is 6 years younger to D. D is 2 years older to E. E is 7 years younger to F. Who is the eldest?

B, C से 4 वर्ष बड़ा है। C, D से 6 वर्ष छोटा है। D, E से 2 वर्ष बड़ा है। E, F से 7 वर्ष छोटा है। सबसे बड़ा कौन है?

Options:

- 1) D
- 2) F
- 3) E
- 4) B

Correct Answer: F**Candidate Answer:** B

QID : 22 - Saurav walks 36 km towards south. He turns left and walks another 36 km. He turns left and walks another 36 km. In which direction is he from his starting point?

सौरव दक्षिण की ओर 36 कि.मी. चलता है। वह बायीं ओर मुड़ता है तथा 36 कि.मी. और चलता है। वह बायीं ओर मुड़ता है तथा 36 कि.मी. और चलता है। वह अपने आरंभिक बिन्दु से किस दिशा में है?

Options:

1) North

उत्तर

2) East

पूर्व

3) South-East

दक्षिण-पूर्व

4) West

पश्चिम

Correct Answer: East

पूर्व

Candidate Answer: East

पूर्व

QID : 23 - In the following question below are given some statements followed by some conclusions. Taking the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts, read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows the given statements.

Statements:

I. Some red are green.

II. All red are yellow.

Conclusions:

I. Some green are yellow.

II. Some green are not red.

नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष, दिए गए कथनों के आधार पर युक्तिसंगत हैं।

कथन:

I. कुछ लाल हरे हैं।

II. सभी लाल पीले हैं।

निष्कर्ष:

I. कुछ हरे पीले हैं।

II. कुछ हरे लाल नहीं हैं।

Options:

1) Only conclusion (I) follows.

केवल निष्कर्ष (I) सही है।

2) Only conclusion (II) follows.

केवल निष्कर्ष (II) सही है।

3) Both conclusion follow.

दोनों ही निष्कर्ष सही हैं।

4) Neither conclusion (I) nor conclusion (II) follows.

न तो निष्कर्ष (I) न ही निष्कर्ष (II) सही है।

Correct Answer: Only conclusion (I) follows.

केवल निष्कर्ष (I) सही है।

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 24 - In a certain code language, 'god' is written as 'human', 'human' is written as 'red', 'red' is written as 'pink', 'pink' is written as 'temple' and 'temple' is written as 'tomato'. Where do we worship?

एक विशिष्ट कोड भाषा में, 'ईश्वर' को 'मनुष्य', 'मनुष्य' को 'लाल', 'लाल' को 'गुलाबी', 'गुलाबी' को 'मंदिर' तथा 'मंदिर' को 'टमाटर' लिखा जाता है। हम पूजा कहाँ करते हैं?

Options:

1) temple

मंदिर

2) pink

गुलाबी

3) tomato

टमाटर

4) red

लाल

Correct Answer: tomato

टमाटर

Candidate Answer: tomato

टमाटर

QID : 25 - In a certain code language, "WALK" is written as "46" and "TRAP" is written as "54". How is "STOP" written in that code language?

एक विशिष्ट कोड भाषा में, "WALK" को "46" तथा "TRAP" को "54" लिखा जाता है। इस कोड भाषा में "STOP" को किस प्रकार लिखा जाएगा?

Options:

1) 49

2) 55

3) 69

4) 72

Correct Answer: 69

Candidate Answer: 69

QID : 26 - Which of the following is not a prime number?

निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है?

Options:

1) 87

2) 61

3) 79

4) 89

Correct Answer: 87

Candidate Answer: 79

QID : 27 - What is the value of $[(6.5)^3 + (4.7)^3] \div [(6.5)^2 - 6.5 \times 4.7 + (4.7)^2]$?

$[(6.5)^3 + (4.7)^3] \div [(6.5)^2 - 6.5 \times 4.7 + (4.7)^2]$ का मान क्या है?

Options:

1) 11.2

2) 13.5

3) 12.7

4) 13.2

Correct Answer: 11.2

Candidate Answer: 12.7

QID : 28 - Which of the following statement(s) is/are true?

I. $(\sqrt{9} - \sqrt{6}) > (\sqrt{6} - \sqrt{3})$

II. $(\sqrt{6} - \sqrt{9}) > (\sqrt{3} - \sqrt{5})$

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

I. $(\sqrt{9} - \sqrt{6}) > (\sqrt{6} - \sqrt{3})$

II. $(\sqrt{6} - \sqrt{9}) > (\sqrt{3} - \sqrt{5})$

Options:

1) Only I

केवल I

2) Only II

केवल II

3) Both I and II

I तथा II दोनों

4) Neither I nor II

न तो I न ही II

Correct Answer: Neither I nor II

न तो I न ही II

Candidate Answer: Neither I nor II

न तो I न ही II

QID : 29 - How many positive factors of 112 are there?

112 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं?

Options:

1) 9

2) 10

3) 8

4) 7

Correct Answer: 10

Candidate Answer: 8

QID : 30 -

What is the value of $\sqrt{256 + \sqrt{484 + \sqrt{121}}}$?

$\sqrt{256 + \sqrt{484 + \sqrt{121}}}$ का मान क्या है?

Options:

- 1) 16
- 2) 18
- 3) 17
- 4) 19

Correct Answer: 17**Candidate Answer:** 19**QID : 31 -** How many numbers are there from 11 to 131 which are divisible by both 5 and 7?

11 से 131 तक ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 5 तथा 7 दोनों से विभाज्य होती हैं?

Options:

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 5

Correct Answer: 3**Candidate Answer:** 2**QID : 32 -** P alone can do a work in 60 days. P is 40% less efficient than Q. In how many days can Q alone do the same work?

P एक कार्य को अकेला 60 दिनों में पूरा कर सकता है। P, Q से 40% कम कार्यकुशल है। Q अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

Options:

- 1) 40
- 2) 38
- 3) 35
- 4) 36

Correct Answer: 36**Candidate Answer:** 36**QID : 33 -** Two pipes A and B can alone fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively. Pipe C can alone empty the same tank in 6 hours. If all three pipes are opened together, then in how many hours will the tank be filled?

दो पाईप A तथा B एक टंकी को अकेले क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकते हैं। पाईप C उसी टंकी को अकेले 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाईपों को एक साथ खोल दिया जाये, तो टंकी कितने घंटे में भर जायेगी?

Options:

- 1) 9
- 2) 18
- 3) 8
- 4) 6

Correct Answer: 9**Candidate Answer:** 6**QID : 34 -** If the area of an equilateral triangle is $60\sqrt{3} \text{ m}^2$, then what is the value (in metres) of its height?

यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $60\sqrt{3} \text{ मी.}^2$ है, तो उसकी ऊंचाई का मान (मीटर में) क्या है?

Options:

- 1) $4\sqrt{5}$
- 2) $5\sqrt{5}$
- 3) $\sqrt{30}$
- 4) $6\sqrt{5}$

Correct Answer: $6\sqrt{5}$ **Candidate Answer:** $\sqrt{30}$ **QID : 35 -** A profit of 20% is made after giving a discount of 10% on an article. If the marked price of the article is Rs 2240, then what is its cost price (in Rs)?

एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2240 रु है, तो उसका क्रय मूल्य (रु में) क्या है?

Options:

- 1) 1720
- 2) 1680
- 3) 1740
- 4) 1800

Correct Answer: 1680**Candidate Answer:** 1680

QID : 36 - An article has marked price of Rs 7500 and is available at a discount of 20%. The shopkeeper gives another discount to the buyer and sells the article for Rs 5100. What is the second discount (in %) offered?

एक वस्तु का अंकित मूल्य 7500 रु है तथा 20% की छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट देता है तथा वस्तु को 5100 रु में बेच देता है। दूसरी बार दी गई छूट (% में) कितनी है?

Options:

- 1) 10
- 2) 15
- 3) 12
- 4) 20

Correct Answer: 15

Candidate Answer: 15

QID : 37 - The ratio of two positive numbers is 4 : 7. Their product is 4732. What is the smallest number?

दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4 : 7 है। उनका गुणनफल 4732 है। छोटी संख्या क्या है?

Options:

- 1) 143
- 2) 52
- 3) 91
- 4) 104

Correct Answer: 52

Candidate Answer: 104

QID : 38 - If the sum of two numbers is equal to six times of their difference, then what is the ratio of the given numbers?

यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के छह गुना के बराबर है, तो दी गई संख्याओं का अनुपात क्या है?

Options:

- 1) 7 : 5
- 2) 3 : 4
- 3) 5 : 6
- 4) 4 : 1

Correct Answer: 7 : 5

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 39 - The average age of a class is 21 years. If a student with age 42 years joins the class, then new average age becomes 24 years. How many total students are there in the class?

एक कक्षा की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि 42 वर्ष आयु वाला एक छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है, तो नयी औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं?

Options:

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 8
- 4) 6

Correct Answer: 6

Candidate Answer: 6

QID : 40 - A sold a car to B at a profit of 20%. B sold the car to C at a loss of 10%. If C pays Rs 432 for car, then for how much (in Rs) A bought the car?

A ने B को 20% के लाभ पर एक कार बेची। B ने C को 10% की हानि पर कार बेची। यदि C कार के लिए 432 रु चुकाता है, तो A ने कितने (रु में) कार खरीदी थी?

Options:

- 1) 303.3
- 2) 400
- 3) 200
- 4) 252.25

Correct Answer: 400

Candidate Answer: 200

QID : 41 - If oranges are bought at the rate of 9 for a rupee, then how many oranges must be sold for a rupee so as to gain 12.5%?

यदि एक रुपये में 9 की दर से संतरे खरीदे गये हैं, तो एक रुपये में कितने संतरे बेचे जायें कि 12.5% का लाभ हो?

Options:

- 1) 7
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 4

Correct Answer: 8

Candidate Answer: 8

QID : 42 - A number is decreased first by 30% and then it is again decreased by 30%. What is the percentage change in the number?

एक संख्या को पहले 30% से घटाया जाता है तथा फिर उसे पुनः 30% से घटाया जाता है। संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है?

Options:

1) 60% decrease

60% की कमी

2) 51% decrease

51% की कमी

3) No change

कोई परिवर्तन नहीं

4) 66% decrease

66% की कमी

Correct Answer: 51% decrease

51% की कमी

Candidate Answer: 60% decrease

60% की कमी

QID : 43 - Two numbers are 10% and 20% less than the third number respectively. First number is what percent of the second number?

दो संख्याएँ एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% कम हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है?

Options:

1) 112.5

2) 115

3) 108.5

4) 105

Correct Answer: 112.5

Candidate Answer: 108.5

QID : 44 - A car travels at a speed of 50 m/s. for 5 hours. What is the distance (in km) travelled by the car?

एक कार 50 मी./से. की गति से 5 घण्टे तक चलती है। कार द्वारा कितनी दूरी (कि.मी. में) तय की गई है?

Options:

1) 1000

2) 900

3) 990

4) 500

Correct Answer: 900

Candidate Answer: 900

QID : 45 - A 700 metre long train crosses an 800 metre long bridge in 27 seconds. What is speed (in km/hr) of the train?

700 मीटर लम्बी एक रेलगाड़ी एक 800 मीटर लम्बे पुल को 27 सेकण्ड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति (कि.मी./घंटा में) क्या है?

Options:

1) 180

2) 200

3) 250

4) 175

Correct Answer: 200

Candidate Answer: 175

QID : 46 - What is the sum (in Rs) of money which will become Rs 29160 at the rate of 8% per annum at compound interest in two years?

वह धनराशि (रु में) क्या है जो दो वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 29160 रु हो जायेगी?

Options:

1) 25000

2) 26000

3) 28000

4) 20000


Correct Answer: 25000

Candidate Answer: 26000

QID : 47 -

The pie chart given below shows the distribution of students who like the given 5 sports. The total number of students is 960.

नीचे दिए गए वृत्त चित्र में दिए गए 5 विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 960 है।



What is the difference between the number of students who like Cricket and those who like Golf?

क्रिकेट पसंद करने वाले तथा गोल्फ पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अंतर क्या है?

Options:

- 1) 72
- 2) 50
- 3) 48
- 4) 90


Correct Answer: 48

Candidate Answer: 50

QID : 48 -

The pie chart given below shows the distribution of students who like the given 5 sports. The total number of students is 960.

नीचे दिए गए वृत्त चित्र में दिए गए 5 विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 960 है।



The number of students who like Golf is how much percent more than the number of students who like Rugby?

गोल्फ पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या रग्बी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?


Options:

- 1) 25
- 2) 50
- 3) 33.33
- 4) 66.66

Correct Answer: 33.33**Candidate Answer:** 25**QID : 49 -**

The pie chart given below shows the distribution of students who like the given 5 sports. The total number of students is 960.

नीचे दिए गए वृत्त चित्र में दिए गए 5 विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 960 है।



What is the average number of students who like Golf and Cricket?

गोल्फ तथा क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है?

Options:


- 1) 240
- 2) 432
- 3) 192
- 4) 216

Correct Answer: 216**Candidate Answer:** 216

QID : 50 -

The pie chart given below shows the distribution of students who like the given 5 sports. The total number of students is 960.

नीचे दिए गए वृत्त चित्र में दिए गए 5 विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 960 है।



The total number of students who like these 2 sports is equal to the number of students who like Cricket. Which are these 2 sports?

इन 2 खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है। यह 2 खेल कौन से हैं?

Options:

- 1) Golf and Football
गोल्फ तथा फुटबॉल
- 2) Rugby and Polo
रग्बी तथा पोलो
- 3) Cricket and Golf
क्रिकेट तथा गोल्फ
- 4) Polo and Golf
पोलो तथा गोल्फ

Correct Answer: Rugby and Polo
रग्बी तथा पोलो

Candidate Answer: Golf and Football
गोल्फ तथा फुटबॉल

QID : 51 - In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select 'No Error'.

As children tend to be highly impressionistic (1)/ one must be very careful for doing (2)/ or saying anything in their presence (3)/ No Error (4)

Options:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

Correct Answer: 2

Candidate Answer: 4

QID : 52 - In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select 'No Error'.

An act of kindness (1)/ never gone (2)/ wasted (3)/ No error (4)

Options:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

Correct Answer: 2

Candidate Answer: 2

QID : 53 - In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option.

My daughter Meera really wants _____ dog for Christmas.

Options:

- 1) a
- 2) an
- 3) the
- 4) No option is correct.

Correct Answer: a**Candidate Answer:** a

QID : 54 - In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option.

A lively person is always _____ great company.

Options:

- 1) a
- 2) an
- 3) the
- 4) No option is correct

Correct Answer: a**Candidate Answer:** an

QID : 55 - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word.

Gravity**Options:**

- 1) Depth
- 2) Charge
- 3) Brevity
- 4) Sheen

Correct Answer: Depth**Candidate Answer:** Depth

QID : 56 - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word.

Quack**Options:**

- 1) Discharge
- 2) Exhausted
- 3) Knave
- 4) Fake

Correct Answer: Fake**Candidate Answer:** Exhausted

QID : 57 - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word.

Yoke**Options:**

- 1) Detach
- 2) Harness
- 3) Release
- 4) Liberate

Correct Answer: Harness**Candidate Answer:** Detach

QID : 58 - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word.

Servant**Options:**

- 1) Mister
- 2) Master
- 3) Minister
- 4) Matter

Correct Answer: Master**Candidate Answer:** Master

QID : 59 - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word.

Tragedy

Options:

- 1) Pathos
- 2) Fortune
- 3) Unfortunate
- 4) Damage

Correct Answer: Fortune**Candidate Answer:** Unfortunate**QID : 60** - In the following question, out of the given four alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word.**Fugitive****Options:**

- 1) Evanescent
- 2) Captive
- 3) Unkempt
- 4) Smart

Correct Answer: Captive**Candidate Answer:** Smart**QID : 61** - In the following question, out of the four given alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase.**At the drop of a hat****Options:**

- 1) Doing something without any hesitation
- 2) Doing something after much thought
- 3) Doing something as a favour
- 4) Doing nothing

Correct Answer: Doing something without any hesitation**Candidate Answer:** Doing nothing**QID : 62** - In the following question, out of the four given alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase.**All and sundry****Options:**

- 1) Everybody without distinction
- 2) Only rich person
- 3) Together
- 4) Great discrimination

Correct Answer: Everybody without distinction**Candidate Answer:** Together**QID : 63** - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. In case no improvement is needed, select "no improvement".**I believe in the existence of God and (can be seen praying to God everyday)****Options:**

- 1) is seen praying everyday
- 2) pray to God daily
- 3) has praying to God daily
- 4) No improvement

Correct Answer: pray to God daily**Candidate Answer:** pray to God daily**QID : 64** - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. In case no improvement is needed, select "no improvement".**Since 2001, there (is) no massive earthquakes in India.****Options:**

- 1) has been
- 2) were being
- 3) are
- 4) No improvement

Correct Answer: are**Candidate Answer:** has been**QID : 65** - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is best substitute of the phrase.**Compelling attractiveness or ch**

Options:

- 1) Calibre
- 2) Charisma
- 3) Magic
- 4) Mystery

Correct Answer: Charisma**Candidate Answer:** Magic**QID : 66** - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is best substitute of the phrase.**The state or situation of being alone****Options:**

- 1) Gravity
- 2) Charge
- 3) Cheap
- 4) Solitude

Correct Answer: Solitude**Candidate Answer:** Solitude**QID : 67** - In the following question, a word has been written in four different ways out of which only one is correctly spelt. Select the correctly spelt word.**Options:**

- 1) Fatalility
- 2) Fatelyity
- 3) Fetality
- 4) Fatality

Correct Answer: Fatality**Candidate Answer:** Fatality**QID : 68** - In the following question, a word has been written in four different ways out of which only one is correctly spelt. Select the correctly spelt word.**Options:**

- 1) Generasion
- 2) Genertion
- 3) Generation
- 4) Jeneration

Correct Answer: Generation**Candidate Answer:** Generation**QID : 69** - The question below consists of a set of labelled sentences. These sentences, when properly sequenced form a coherent paragraph. Select the most logical order of sentences from among the options

Belief

P: is a must**Q:** to succeed in life**R:** in one's self**Options:**

- 1) QRP
- 2) RQP
- 3) RPQ
- 4) QPR

Correct Answer: RPQ**Candidate Answer:** RPQ**QID : 70** - The question below consists of a set of labelled sentences. These sentences, when properly sequenced form a coherent paragraph. Select the most logical order of sentences from among the options

The Valley of Flowers

P: place to visit**Q:** during the summer season**R:** is a great

Options:

- 1) QRP
- 2) RPQ
- 3) PQR
- 4) QPR

Correct Answer: RPQ**Candidate Answer:** RPQ

QID : 71 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Students who take their studies seriously do _____ in their exams and get a head-start in life. You will notice that most of those who get into the _____ like administrative, foreign, revenue, education, engineering, police and other posts of the bureaucracy were among the _____ in their classes. Others who do equally well or better in _____ like law or medicine, have to make up by studying and working _____ in later life. There are no shortcuts to success.

Students who take their studies seriously do _____ in their exams

Options:

- 1) bad
- 2) worse
- 3) well
- 4) None of the option is correct.

Correct Answer: well**Candidate Answer:** well

QID : 72 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Students who take their studies seriously do _____ in their exams and get a head-start in life. You will notice that most of those who get into the _____ like administrative, foreign, revenue, education, engineering, police and other posts of the bureaucracy were among the _____ in their classes. Others who do equally well or better in _____ like law or medicine, have to make up by studying and working _____ in later life. There are no shortcuts to success.

who get into the _____ like

Options:

- 1) best services
- 2) mediocre services
- 3) low occupation
- 4) No option is correct

Correct Answer: mediocre services**Candidate Answer:** best services

QID : 73 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Students who take their studies seriously do _____ in their exams and get a head-start in life. You will notice that most of those who get into the _____ like administrative, foreign, revenue, education, engineering, police and other posts of the bureaucracy were among the _____ in their classes. Others who do equally well or better in _____ like law or medicine, have to make up by studying and working _____ in later life. There are no shortcuts to success.

other posts of the bureaucracy were among the _____ in their classes.

Options:

- 1) idler
- 2) laggards
- 3) toppers
- 4) No option is correct.

Correct Answer: toppers**Candidate Answer:** toppers

QID : 74 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Students who take their studies seriously do _____ in their exams and get a head-start in life. You will notice that most of those who get into the _____ like administrative, foreign, revenue, education, engineering, police and other posts of the bureaucracy were among the _____ in their classes. Others who do equally well or better in _____ like law or medicine, have to make up by studying and working _____ in later life. There are no shortcuts to success.

do equally well or better in _____ like law or medicine

Options:

- 1) professions
- 2) disavowal
- 3) negation
- 4) No option is correct

Correct Answer: professions**Candidate Answer:** professions

QID : 75 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

Students who take their studies seriously do _____ in their exams and get a head-start in life. You will notice that most of those who get into the _____ like administrative, foreign, revenue, education, engineering, police and other posts of the bureaucracy were among the _____ in their classes. Others who do equally well or better in _____ like law or medicine, have to make up by studying and working _____ in later life. There are no shortcuts to success.

have to make up by studying and working _____ in later life

Options:

- 1) harder
- 2) easier
- 3) robust
- 4) No option is correct

Correct Answer: harder**Candidate Answer:** harder

QID : 76 - Which of the following places of Indus Valley Civilization is located in India?

निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता का कौन-सा स्थान भारत में स्थित है?

Options:

- 1) Harappa
हड़प्पा
- 2) Mohenjodaro
मोहनजोदड़ो
- 3) Lothal
लोथल
- 4) No option is correct.

कोई भी विकल्प सही नहीं है।

Correct Answer: Lothal

लोथल

Candidate Answer: Mohenjodaro

मोहनजोदड़ो

QID : 77 - Where did Siddhartha (Buddha) get enlightenment?

सिद्धार्थ (बुद्ध) को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी ?

Options:

- 1) Varanasi
वाराणसी
- 2) Saranath
सारनाथ
- 3) Kushinagar
कुशीनगर
- 4) Gaya
गया

Correct Answer: Gaya

गया

Candidate Answer: Gaya

गया

QID : 78 - The closest astronomical object to the Earth is _____.

पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिण्ड है _____।

Options:

- 1) Proxima Centauri
प्रोक्सिमा सेन्टोरी
- 2) Moon
चन्द्रमा
- 3) Venus
शुक्र
- 4) Sun
सूर्य

Correct Answer: Moon

चन्द्रमा

Candidate Answer: Moon

चन्द्रमा

QID : 79 - Asia's highest mountain peak is _____.

एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है _____।

Options:

1) Gadwin Austin

गाडविन आस्टिन

2) Mount Everest

माउंट एवरेस्ट

3) Kanchanjunga

कंचनजंघा

4) Nandadevi

नंदादेवी

Correct Answer: Mount Everest

माउंट एवरेस्ट

Candidate Answer: Mount Everest

माउंट एवरेस्ट

QID : 80 - Name the representative of the princely states who did **NOT** participate in the Constituent Assembly?

संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था ?

Options:

1) Cooch Behar

कूच बिहार

2) Kashmir

कश्मीर

3) Hyderabad

हैदराबाद

4) Mysore

मैसूर

Correct Answer: Hyderabad

हैदराबाद

Candidate Answer: Kashmir

कश्मीर

QID : 81 - The President's rule has its origin in which of the following nations?

अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ?

Options:

1) Yugoslavia

युगोस्लाविया

2) Egypt

मिस्र

3) Switzerland

स्विट्जरलैंड

4) United States of America

संयुक्त राज्य अमेरिका

Correct Answer: United States of America

संयुक्त राज्य अमेरिका

Candidate Answer: United States of America

संयुक्त राज्य अमेरिका

QID : 82 - What type of unemployment at present is a serious threat to the development of Indian nation?

वर्तमान समय में किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती है?

Options:

1) Rural unemployment

ग्रामीण बेरोजगारी

2) Urban unemployment

शहरी बेरोजगारी

3) Educated unemployment

शिक्षित बेरोजगारी

4) Open unemployment

खुली बेरोजगारी

Correct Answer: Educated unemployment

शिक्षित बेरोजगारी

Candidate Answer: Educated unemployment

शिक्षित बेरोजगारी

QID : 83 - Cheap Money refers to _____.

सस्ती मुद्रा (Cheap Money) से तात्पर्य है _____।

Options:

1) Low rate of interest

ब्याज की कम दर

2) Low level of savings

बचत का निम्न स्तर

3) Low level of income

आय का निम्न स्तर

4) Low living standard

निम्न जीवन स्तर

Correct Answer: Low rate of interest

ब्याज की कम दर

Candidate Answer: Low level of income

आय का निम्न स्तर

QID : 84 - The chemical property of an element depends on _____.

किसी तत्व के रासायनिक गुण _____ निर्भर करती है।

Options:

1) Atomic mass

परमाणु द्रव्यमान पर

2) Atomic number

परमाणु संख्या पर

3) Mass number

द्रव्यमान संख्या पर

4) Atomic weight

परमाणु भार पर

Correct Answer: Atomic number

परमाणु संख्या पर

Candidate Answer: Atomic mass

परमाणु द्रव्यमान पर

QID : 85 - _____ turns the blue litmus paper into red.

_____ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।

Options:

1) Acid

अम्ल

2) Base

भस्म

3) Alkali

क्षार

4) Salts

लवण

Correct Answer: Acid

अम्ल

Candidate Answer: Acid

अम्ल

QID : 86 - What is measured with the help of decibels?

डेसिबल की सहायता से क्या मापा जाता है?

Options:

1) Haemoglobin in the blood

खून में हीमोग्लोबिन

2) Sugar in urine

पेशाब में शक्कर

3) Sound

ध्वनि

4) Particle in the air

वायु में कण

Correct Answer: Sound

ध्वनि

Candidate Answer: Particle in the air

वायु में कण

QID : 87 - The balloon filled with Hydrogen gets burst when it goes up because _____.

हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि _____

Options:

1) the weight of Hydrogen increases

हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है

2) Air pressure increases

वायु दाब बढ़ जाता है

3) Hydrogen pressure decreases

हाइड्रोजन का दाब घट जाता है

4) Air pressure decreases

वायु दाब घट जाता है

Correct Answer: Air pressure decreases

वायु दाब घट जाता है

Candidate Answer: Air pressure increases

वायु दाब बढ़ जाता है

QID : 88 - Which crop is helpful in Nitrogen fixation?

नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है?

Options:

1) Rice

चावल

2) Wheat

गेहूँ

3) Legume

फली (लेग्यूम)

4) Corn

मकई

Correct Answer: Legume

फली (लेग्यूम)

Candidate Answer: Rice

चावल

QID : 89 - What is the most responsible factor for plant diseases?

पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है?

Options:

1) Fungus

फंफूद

2) Bacterium

जीवाणु

3) Virus

विषाणु

4) Protozoa

प्रोटोजोआ

Correct Answer: Fungus

फंफूद

Candidate Answer: Bacterium

जीवाणु

QID : 90 - In which form of energy, problem of pollution doesn't happens?

ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है?

Options:

1) Coal

कोयला

2) Atom

परमाणु

3) Petrol

पेट्रोल

4) The solar

सौर

Correct Answer: The solar

सौर

Candidate Answer: The solar

सौर

QID : 91 - The primary consumer in an ecology chain is: _____.

किसी पारिस्थितिकी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है _____।

Options:

- 1) Producer
उत्पादक
- 2) Vegetarian
शाकाहारी
- 3) Carnivorous
माँसाहारी
- 4) Decomposer
अपघटक

Correct Answer: Vegetarian
शाकाहारी

Candidate Answer: Producer
उत्पादक

QID : 92 - The control panel is a part of _____ in the Computer System.

कंप्यूटर में कण्ट्रोल पैनल _____ का भाग होता है।

Options:

- 1) Hardware
हार्डवेयर
- 2) Software
सॉफ्टवेयर
- 3) Printer
प्रिंटर
- 4) Hard disk
हार्ड डिस्क

Correct Answer: Software
सॉफ्टवेयर

Candidate Answer: Software
सॉफ्टवेयर

QID : 93 - "Bull Fighting" is the popular sport of which of the following country?

'बुल फाइटिंग' निम्नलिखित में किस देश का लोकप्रिय खेल है?

Options:

- 1) Spain
स्पेन
- 2) Canada
कनाडा
- 3) Scotland
स्कॉटलैंड
- 4) Japan
जापान

Correct Answer: Spain
स्पेन

Candidate Answer: Canada
कनाडा

QID : 94 - Which of the following has written "Ashtadhyayi"?

"अष्टाध्यायी" निम्नलिखित में किसकी रचना है ?

Options:

- 1) Patanjali
पतंजलि
- 2) Panini
पाणिनि
- 3) Kautilya
कौटिल्य
- 4) Bharadwaj
भारद्वाज

Correct Answer: Panini
पाणिनि

Candidate Answer: Patanjali
पतंजलि

QID : 95 - Central Government have approved the investment for how many states under the 'Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation' (AMRUT) scheme in the year 2017?

वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार ने 'अटल कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण मिशन' (AMRUT) योजना के तहत कितने राज्यों में निवेश को मंजूरी दी है?

Options:

- 1) 6
- 2) 8
- 3) 10
- 4) 12

Correct Answer: 6**Candidate Answer:** 12**QID : 96** - J. A. Fleming is the inventor of which of the following?

जे. ए. फ्लेमिंग निम्नलिखित में से किसके आविष्कारक हैं?

Options:

- 1) Wireless Telegram
वायरलेस टेलीग्राम
- 2) Diode Bulb
डायोड बल्ब
- 3) Photo Electric Effect
विद्युत प्रकाश प्रभाव
- 4) Radium
रेडियम

Correct Answer: Diode Bulb

डायोड बल्ब

Candidate Answer: Radium

रेडियम

QID : 97 - The place Maghar is related to which of the great personality ?

मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है?

Options:

- 1) Kabir
कबीर
- 2) Buddha
बुद्ध
- 3) Mahavira
महावीर
- 4) Gurunanak
गुरुनानक

Correct Answer: Kabir

कबीर

Candidate Answer: Gurunanak

गुरुनानक

QID : 98 - Who was the first woman who received the Jnanpith award?

ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी?

Options:

- 1) Mahadevi Verma
महादेवी वर्मा
- 2) Amrita Pritam
अमृता प्रीतम
- 3) Mahashweta Devi
महाश्वेता देवी
- 4) Ashapoorna Devi
आशापूर्णा देवी

Correct Answer: Ashapoorna Devi

आशापूर्णा देवी

Candidate Answer: Mahadevi Verma

महादेवी वर्मा

QID : 99 - Which country of Asia launched rail service to London in 2017?

वर्ष 2017 में एशिया के किस देश ने लन्दन तक रेल सेवा शुरू की?

Options:

1) Kazakhstan

कजाकिस्तान

2) Israel

इजराइल

3) China

चीन

4) Russia

रूस

Correct Answer: China

चीन

Candidate Answer: Israel

इजराइल

QID : 100 - Who is the current king of Bhutan?

भूटान के वर्तमान राजा कौन हैं?

Options:

1) Sangye Dorji

सांगये दोरजी

2) Jigme Dorjee

जिग्मे दोरजी

3) Jigme Singye

जिग्मे सिंगये

4) Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक

Correct Answer: Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक

Candidate Answer: Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक